

क्रम संख्या-114 (घ)

पंजीकृत संख्या-डी0एन0/आर0ओ0-181/2001

(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शनिवार, 27 अक्टूबर, 2001 ई0
कार्तिक 05, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

संख्या 782/कृषि/2001
देहरादून, 27 अक्टूबर, 2001

संशोधित अधिसूचना

प0 आ0-112

कृषि विभाग के उपलब्ध संगठनों में अन्तर्निहित पदों को पुनर्गठित करने विषयक शासन के पत्र संख्या 680/व0ग्रा0वि0-VIII कृषि/2001, दिनांक 4 अक्टूबर, 2001 द्वारा निर्गत अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्वीकृत कुल पदों की संख्या 2454 के स्थान पर 2630 अनुलग्नक-1 तथा स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी अनुलग्नक-2 के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

अनुलग्नक-1

क्र० सं०	पदनाम/श्रेणी/वेतनमान	पुनर्गठन से पूर्व पर्वतीय सम्वर्ग में स्वीकृत पद	वर्तमान कार्यरत पद	26-7-01 को अनुमोदित पद	संशोधित पुनर्गठन प्रस्तावित पद	अन्तर 6-5	समायोजन के सम्बन्ध में टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि निदेशक 18,000-22,400	-	-	1	1	0	
2	अपर कृषि निदेशक 14,300-18,300	1	-	2	2	0	
3	संयुक्त कृषि निदेशक 12,000-16,500	-	-	4	4	0	
4	श्रेणी-1 10,000-15,200	18	6	18	19	1	
5	वित्त एवं लेखा नियंत्रक 10,000-15,200	-	-	1	1		
	योग श्रेणी-1	19	6	26	26	0	
6	श्रेणी-2 8,000-13,500	63	34	40	55	15	
7	लेखाधिकारी 8,000-13,500	1	-	2	2	0	
	योग	64	34	42	57	15	
8	सहायक लेखाधिकारी अराजपत्रित 6,500-10,500	-	-	-	1	1	
9	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 5,000-8,000	139	83	127	140	13	
10	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 4,500-7,000	463	383	386	417	31	
11	अवर अभियन्ता 4,500-7,000	52	36	33	40	7	
12	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 3,200-4,900	873	731	760	739	-21	
13	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 6,500-10,500	-	-	1	1	0	
14	प्रशासनिक अधिकारी 5,500-9,000	1	-	-	2	2	
15	प्रधान लिपिक 4,500-7,000	6	1	15	15	0	
16	वरिष्ठ लिपिक 4,000-6,000	79	73	37	74	37	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	कनिष्ठ लिपिक 3,050-4,590	266	196	134	180	46	16 लिपिकों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर सहायक लेखाकार के पदों पर नियुक्ति देकर समायोजित किया जायेगा।
18	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 6,500-10,500	-	-	1	1	0	
19	वैयक्तिक सहायक 5,500-9,000	1	1	-	2	2	
20	वैयक्तिक सहायक 5,000-8,000	-	-	-	4	4	
21	आशुलिपिक 4,000-6,000	17	12	28	23	-5	06 पद उच्चीकृत किये गये हैं।
22	लेखाकार 5,000-8,000	19	2	20	20	0	
23	सहायक लेखाकार 4,000-6,000	71	50	82	87	5	
24	वरिष्ठ मानचित्रक 6,500-10,500	-	-	-	1	1	वरिष्ठ मानचित्रक के पद पर पदोन्नति कर समायोजित किया जायेगा।
25	मानचित्रक 4,000-6,000	28	27	15	26	11	
26	अनुरेखक 3,050-4,590	41	42	14	42	28	
27	कृषि रक्षा यांत्रिक 3,050-4,590	24	23	21	23	2	
28	चालक 3,050-4,590	71	49	57	64	7	
29	कामदार/परिचारक/ लैब सहायक 2,610-3,540	250	16	18	20	2	
30	चतुर्थ श्रेणी/चौकीदार अर्दली/स्वच्छक 2,550-3,200	546	551	637	624	-13	
	योग	3030	2316	2454	2630	176	

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	बढ़े/कम हुए पदों की सं०	अभ्युक्ति
1	उप निदेशक कृषि सांख्यिकी श्रेणी-1	10,000-15,200	01	मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय हेतु
2	कृषि रक्षा अधिकारी-10, भूमि संरक्षण अधिकारी-4, सहायक निदेशक प्रदर्शन-1 (श्रेणी-दो)	8,000-13,500	15	
3	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6,500-10,500	01	निदेशालय स्तर पर
4	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1/अपर सांख्यिकीय अधिकारी	5,000-8,000	13	मू०सं०इ०-5, कृ०प्र०प्रद० केन्द्र-4, मुख्य राजस्व आयुक्त स्तर पर-04
5	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2	4,500-7,000	31	मू०सं०इ०-20, कृ०प्र०प्रद० केन्द्र-7, बीज विधायन संयंत्र-2, बीज परीक्षण प्रयोगशाला-2
6	अवर अभियन्ता	4,500-7,000	07	मू०सं०इ०-5, निदेशालय स्तर पर-2
7	मानचित्रक आंशुलिपिक	4,000-6,000 4,000-6,000	11 01	मू०सं०इ०-5, निदेशालय स्तर पर-6 (पुनर्गठन से पूर्व स्वीकृत पदों के अनुरूप ही कार्यहित में यथावत रखा गया है) मुख्य राजस्व आयुक्त स्तर पर-01
8	अनुरेखक	3,050-4,590	28	मू० सं० इ०-24, निदेशालय स्तर पर-4 (पुनर्गठन से पूर्व स्वीकृत पदों के अनुरूप ही कार्यहित में यथावत रखा गया है)
9	सहायक लेखाकार	4,000-6,000	05	मू०सं०इ०-4, कृ०प्रद० एवं प्रशि० केन्द्र-1
10	वरिष्ठ लिपिक	4,000-6,000	37	निदेशालय व जिला स्तर पर (पुनर्गठन से पूर्व स्वीकृत के अनुरूप)
11	कनिष्ठ लिपिक	3,050-4,590	46	निदेशालय व जिला स्तर पर (पुनर्गठन से पूर्व स्वीकृत के अनुरूप)
12	सहायक लेखाधिकारी	6,500-10,500	01	निदेशालय स्तर पर
13	प्रशासनिक अधिकारी	5,500-9,000	01	निदेशालय स्तर पर
14	वरिष्ठ मानचित्रक	5,000-8,000	01	निदेशालय स्तर पर
15	यांत्रिक	3,050-4,590	02	निदेशालय स्तर पर
16	चालक	3,050-4,590	07	मू० सं० इ०-4, कृ० प्रद० एवं प्र० केन्द्र-2, मुख्य राजस्व आयुक्त स्तर पर-01
17	कामदार/परिचालक/ लैब सहायक	2,610-3,540	02	कृ० परी० प्रदर्शन केन्द्र-2
18	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3	3,200-4,900	-21	मू०सं० इकाई, बीज परीक्षण प्रयोगशाला में 74 पद बढ़ाये गये हैं तथा कृषि प्रसार योजना के अन्तर्गत 95 पद कम किये गये हैं।
19	चतुर्थ श्रेणी	2,550-3,200	-13	निदेशालय एवं जनपद स्तर पर कम किये गये हैं
	योग		210-34	

(शुद्ध बढ़े हुये पद — 210-34 = 176)

आज्ञा से,

(डा० आर० एस० टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 20 कृषि/769-2001-200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

27/00/001. Pdf